



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 952 राँची, गुरुवार,

4 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 अक्टूबर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-27/2017-2481 (HRMS)-- श्री आशीष कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-303, दिनांक 13 फरवरी, 2017 द्वारा प्रपत्र-क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके - विरुद्ध निमन्वत आरोप प्रतिवेदित किए गए हैं ।

आरोप- आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के लिए चयनित लाभुक श्रीमती गीता देवी, पति श्री गोपाल गोसाई, ग्राम + पंचायत- हेरहंज की जगह पर गलत लाभुक मसो० गीता देवी, पति स्व० दिलीप यादव, ग्राम + पंचायत- हेरहंज को चयनित कर इंदिरा आवास की राशि मो० 18750/- (अठारह हजार सात सौ पचास) रुपये का भुगतान कर दिया गया, जिसके कारण सही चयनित लाभुक सरकार के लाभ से वंचित हो गये एवं सरकारी राशि मो० 18750/- रुपये का दुरुपयोग हुआ, यह सरकारी राशि की क्षति है एवं सही लाभुक को लाभ से वंचित करने का कृत्य अपने पद का दुरुपयोग है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3804, दिनांक 21 मार्च, 2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री कुमार ने पत्रांक-1193, दिनांक 26 अप्रैल, 2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें इनके द्वारा मानवीय भूल तथा अनजाने में हुई गलती हेतु क्षमा याचना करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11856, दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-114/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार द्वारा सही चयनित लाभुक को सरकार के लाभ से वंचित किये जाने एवं सरकारी राशि 18750/- (अठारह हजार सात सौ पचास) रुपये का दुरुपयोग संबंधी आरोपों पर दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लातेहार के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि दोनों इंदिरा आवास योजना के लंबित रहने हेतु श्री कुमार निश्चित रूप से दोषी हैं।

अतः समीक्षोपरान्त, श्री आशीष कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज, सम्प्रति-कार्यपालक पदाधिकारी, रामगढ़, नगर परिषद्, रामगढ़ को सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम -14 (i) के तहत "निंदन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ASISH KUMAR JHK/JAS/227	श्री आशीष कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज, सम्प्रति-कार्यपालक पदाधिकारी, रामगढ़, नगर परिषद्, रामगढ़ को सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
